

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली सोमवार, नवम्बर 30, 1981/अग्रहायण 9, 1903
No. 387] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 30, 1981/AGRAHAYANA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1981

[सं० 191/81 केन्द्रीय उत्पाव शुल्क]

सा० का० नि० 623(अ) --केन्द्रीय उत्पाव शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944)
का 1) की धारा 3 उपधारा (2) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार
के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 31 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना सं० 177/
81-के० उ० शु० को अधिकृत करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची

1011 GI/81

(1811)

की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए चार सौ साठ (चपरे चार सौ साठ) प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन, किए जाने की अपेक्षा करती है।

2. यह अधिसूचना 1 दिसम्बर 1981 से प्रवृत्त होगी।

[191/81-के० उ० शु०/का० सं० 7/1/81-के० उ० शु०-1]

भार० देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1981

No. 191/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 177/81-Central Excises, dated the 31st October, 1981, the Central Government hereby fixes a tariff value of four hundred and sixty rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of December, 1981.

[Notification No. 191/81-CE/F. No 7/1/81-CX I]

R. DEB, Under Secy.